

# **FORD SCHOOL & COLLEGE**

## **Syllabus of Class – 10<sup>th</sup> (2026-2027)**

SUBJECT	TERM - I		TERM - II	
	PA -I	Half Yearly Examination	PA-II	Final Examination
<b>ENGLISH LITRATURE</b>	<u><b>First Flight-</b></u> 1. A Letter To God 2. Dust of Snow 3. Fire and Ice <u><b>Footprints-</b></u> 1. The Triumph of Surgery	<u><b>First Flight-</b></u> 1. Nelson Mandela 2. Tiger in the Zoo 3. How to Tell Wild Animals 4. Two Stories About Flying 5. Ball Poem 6. Amanda 7. From the Diary of Anne Frank <u><b>Footprints-</b></u> 1. The Thief's Story 2. The Midnight Visitor 3. Question of Trust	<u><b>First Flight-</b></u> 1. Glimpse of India 2. Trees 3. Fog <u><b>Foot Points -</b></u> 1. Footprints Without Feet 2. The Making of Scientist	<u><b>First Flight-</b></u> 1. Migbil the Otter 2. The Tale of the Custard Dragon 3. Madam Ride the Bus 4. The Sermon at Benares 5. Anne Gregory 6. The Proposal <u><b>Footprints-</b></u> 1. The Necklace, 2. Bholi 3. The Book that Saved the Earth
<b>ENGLISH GRAMMAR</b>	1. Comprehension 2. Transformation of Sentences 3. Formal Letter	1. Comprehension 2. Analytical Paragraph 3. Modals 4. Tenses 5. Formal Letter	1. Determiners 2. Editing 3. Comprehension	1. Comprehension 3. Gap Filling 4. Reported Speech 5. Subject - Verb Concord
<b>MATHS</b>	1. Real Numbers 2. Polynomials 3. Pair of Linear Equations in Two Variables	4 - Quadratic Equations 5- Arithmetic Progressions 6- Coordinate Geometry 7- Areas Related to Circles	8. Triangles 9. Introduction to Trigonometry 10. Some Applications of Trigonometry	11. <b>Circles</b> 12. Surface Areas and Volumes 13. Statistics 14. Probability
<b>SOCIAL SCIENCE</b>	<u><b>History-</b></u> 1. The rise of Nationalism in Europe <u><b>Geography</b></u> 1. Resources and Development <u><b>Civics</b></u> 1. power sharing <u><b>Economics</b></u> 1. Development	<u><b>History-</b></u> 2. Nationalism in India <u><b>Geography</b></u> 2. Forest and wildlife resources <u><b>Civics</b></u> 2. Federalism  <u><b>Economics</b></u> 2. Sectors of the Indian Economy	<u><b>History-</b></u> 3. The making of a global world Topics {1 to 1.3} <u><b>Geography</b></u> 3. Water resources 4. Agriculture <u><b>Civics</b></u> 3. Gender Religion and caste <u><b>Economics</b></u> 3. Money and credit	<u><b>History-</b></u> 4. Print culture and the modern world <u><b>Geography</b></u> 5. Minerals and Energy Resources 6. Manufacturing Industries 7. Lifelines of National Economy <u><b>Civics</b></u> 4. political parties 5. Outcomes of Democracy <u><b>Economics</b></u> 4. Globalisation and the Indian Economy

				{Project work} consumer rights.
<b>HINDI LITERATURE</b>	पाठ - 1 एक माता का आंचल पाठ - 2साना साना हाथ जोड़ी पाठ - 3मैं क्यों लिखता हूँ	पाठ सूरदास के पद पाठ - उत्साह तथा अट नहीं रही है ) कविता( पाठ – बाल गोविंद भगत पाठ - नेताजी का चश्मा पाठ - नौबत खाने में इबादत	पाठ यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल पाठ - लखनवी अंदाज पाठ - एक कहानी यह भी	पाठ - राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ - आत्मकथा पाठ - संगतकार पाठ – संस्कृति
<b>HINDI LANGUAGE</b>	अपठित गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, स्ववृत्त / स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन	* वाक्य भेद रचना के आधार पर , * वाच्य, संदेश लेखन, * विज्ञापन लेखन	* अनुच्छेद लेखन	* पद परिचय * अलंकार * संपूर्ण भाग,
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>	<b>EMPLOYABILITY SKILLS:</b> COMMUNICATION SKILLS <b>SUBJECT SPECIFIC SKILLS:</b> DIGITAL DOCUMENTATION (ADVANCED)	<b>EMPLOYABILITY SKILLS:</b> SELF-MANAGEMENT SKILLS, AND ICT SKILLS <b>SUBJECT SPECIFIC SKILLS:</b> DIGITAL DOCUMENTATION (ADVANCED), ELECTRONIC SPREADSHEET (ADVANCED)	<b>EMPLOYABILITY SKILLS:</b> ENTREPRENEURIAL SKILLS <b>SUBJECT SPECIFIC SKILLS:</b> DATABASE MANAGEMENT SYSTEM	<b>EMPLOYABILITY SKILLS:</b> UNIT-1, UNIT-2, UNIT-3, UNIT-4, UNIT-5 <b>SUBJECT SPECIFIC SKILLS:</b> UNIT-1, UNIT-2, UNIT-3, UNIT-4
<b>SCIENCE</b>	1. Chemical reaction and equation 2. Life processes 3. Light - Reflection and Refraction	P.A 1 + 4. Acid bases and salts 5. Control and coordination's 6. The Human eye and colourful world	7. Metals and non-metals 8. How do organism reproduce 9. Electricity	P.A-1 + Half yearly + P.A 2 10. Carbon and it's compound 11. Our environment 12. Heredity 13. Magnetic effect of electric current